



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

संख्या 13.88  
दिनांक ३०.१२.८८

सं. 661]

नई विल्सी, बुद्धवार, दिसम्बर 30, 1987/पौष 9, 1909

No. 661] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 1987/PAUSA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging Is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग भवानीय

(शायत आर पैट्रो-ज्यायन विभाग)

बिहार जायकृत का भावानीय (भौतिक उद्योग)

मई विल्सी, 30 दिसम्बर, 1987

आवेदन

का० आ० 1134(प्र)।—फैक्ट्री१ सरकार, और्पांच (कीमत विवरण)  
जावेण, 1987 के दैरा ० के उपर्योग (६) के खंड (क) द्वारा प्रवर्त  
शक्तिवालों का प्रयोग करते हुए नींवे की सारणी के स्तरम् ३ में यथा  
विविरित कीमत को, उक्त सारणी के स्तरम् २ में की तरस्थानी प्रविठित में  
विविरित प्रत्येक प्रवर्ग-I के सुधारयुग की, जिनकी प्रबलता प्रोत्तर पैक आकार क्रमानु  
उपरके स्तरम् ३ और स्तरम् ५ में की तरस्थानी प्रविठितों में विविरित  
है, अधिकतम यीमत, जब ओड नाम से बेची जाए, जिसमें उत्पाद शुल्क  
और स्वार्थीय कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं है, नियत करती है:—

सारणी

क्रम	गुद्धयोग का नाम	प्रबलता	पैक का जावार	अधिकतम कीमत (₹०)
1.	सोडियम बेनिल प्रोकेन पेनिसिलिन इमेजेन	प्रोकेन पेनिसिलिन सहित प्रोकेन पेनिसिलिन इमेजेन	1 खुराक 3 लाख यूनिट+	2 ९२ की शीशी
	सोडियम बेनिल प्रोकेन पेनिसिलिन इमेजेन	प्रोकेन पेनिसिलिन सहित	3 लाख यूनिट+	की शीशी
	सोडियम बेनिल प्रोकेन पेनिसिलिन इमेजेन	प्रोकेन पेनिसिलिन सहित	सोडियम बेनिल पेनि- सिलिन 1 लाख यूनिट	7 ११

1	2	3	4	5
2 सोडियम बेनिल प्रोकेन पेनिसिलिन प्रोकेन पेनिसिलिन सहित प्रोकेन पेनिसिलिन इमेजेन	प्रोकेन पेनिसिलिन 3 साथ यूनिट+ सोडियम बेनिल इमेजेन	5 खुराक की शीशी	7 ११	
3. सोडियम बेनिल प्रोकेन पेनिसिलिन प्रोकेन पेनिसिलिन सहित प्रोकेन पेनिसिलिन इमेजेन	प्रोकेन पेनिसिलिन 3 साथ यूनिट+	1 लाध यूनिट खुराक।	10 खुराक	12 ८८
4. स्ट्रेप्टोमाइसिन + प्रोकेन पेनिसिलिन + सोडियम बेनि- सिलिन जी० इन्जे- क्शन	स्ट्रेप्टोमाइसिन + प्रोकेन पेनिसिलिन + सोडियम बेनि- सिलिन जी० इन्जे- क्शन	0. 5 ग्रा० + सोडि- यम पेनिसिलिन 1 यूनिट + प्रोकेन पेनिसिलिन जी० 3 लाख यूनिट/ खुराक।	1 खुराक की शीशी	4. २२
5. स्ट्रेप्टोमाइसिन + प्रोकेन पेनिसिलिन + सोडियम बेनि- सिलिन जी० इन्जे- क्शन	स्ट्रेप्टोमाइसिन 0. ३ प्रोकेन पेनिसिलिन + सोडियम बेनि- सिलिन जी० इन्जे- क्शन 1	5 खुराक की शीशी	13. ८६	

TABLE

6.	स्ट्रेप्टोमाइसिन + प्रोकैन डेनिसिलिन + सीडियम पेनि- सिलिन जी फोर्ट इन्जेक्शन	स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 मा० + सोडियम पेनि- सिलिन 1 लाख यूनिट + प्रोकैन डेनिसिलिन 3 लाख यूनिट/ चुराक।	1 चुराक	5. 68
7.	स्ट्रेप्टोमाइसिन + प्रोकैन डेनिसिलिन + सीडियम पेनि- सिलिन जी इन्जेक्शन।	स्ट्रेप्टोमाइसिन 0. 25 मा० + सीडियम पेनि- सिलिन 1 लाख यूनिट + प्रोकैन डेनिसिलिन 3 लाख यूनिट/चुराक।	1 चुराक	3. 68
8.	स्ट्रेप्टोमाइसिन + पेनिसिलिन इन्जे- क्शन।	स्ट्रेप्टोमाइसिन 0. 5 मा० + पेनिसिलिन 5 लाख यूनिट।	1 शीशी	4. 52
9.	स्ट्रेप्टोमाइसिन + पेनिसिलिन इन्जे- क्शन।	स्ट्रेप्टोमाइसिन 0. 25 मा० + पेनिसिलिन 5 लाख यूनिट/चुराक।	1 शीशी	2. 80

[सं० 8(90)/87-प्र-II]

मा० एस० माधुर, संयुक्त सचिव प्रीर विकास मा०युक्त (पी०प्राई०)

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals &amp; Petro Chemicals)

Office of the Development Commissioner  
(Pharmaceutical Industry)

New Delhi, the 30th December, 1987

## ORDER

S.O. 1134(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the price as specified in column 5 of the Table below as the ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Category I formulations specified in corresponding entry in column 2 of the said Table when sold under brand name with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof :

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
				1
1.	Procaine Penicillin with Sodium Benzyl Penicillin Injection	Procaine Penicillin- 1 dose 3 lac units + Sodium Benzyl Penicillin-1 lac units/dose	Procaine Penicillin- 1 does 3 lac units + vial	2.92
2.	Procaine Penicillin with Sodium Benzyl Penicillin Injection	Procaine Peni- cillin- 3 lac units + Sodium Benzyl Penicillin-1 lac units/dose	Procaine Peni- cillin- 3 lac units + vial	7.44
3.	Procaine Penicillin Sodium Benzyl Penicillin Injection	Procaine Penici- llin-3 lac units + Sodium Benzyl Penicillin-1 lac unit/dose	Procaine Penici- llin-3 lac units + vial	12.88
4.	Streptomycin + Procaine Penicillin + Sodium Penicillin G. Injection	Streptomycin -0.5 gm + Sodium Penicillin-1 units + Progmcaine Penicillin-G-3 lac units/dose	Streptomycin -0.5 gm + Sodium vail	4.22
5.	Streptomycin + Procaine Penicillin + Sodium Peni- cillin G Injection	Streptomycin-0.5 gm + Sodium Penicillin 1 lac units + Procaine Penicillin-3 lac units/dose	Streptomycin-0.5 does vial	13.86
6.	Streptomycin + Procaine Penicillin + Sodium Penicillin G Forte Injection	Streptomycin-1 gm + Sodium Penicillin 1 lac units Procaine Penicillin-3 lac units/dose	Streptomycin-1 does vial	5.68
7.	Streptomycin + Procaine Penicillin + Sodium Penicillin G Injection	Streptomycin-0.25 gm + Sodium Penicillin 1 lac units + Procain Penicillin-3 lac units/dose	Streptomycin-0.25 gm + Sodium vial	3.58
8.	Streptomycin + Penicillin Injection	Streptomycin-0.5 gm + Penicillin-5 lac units	Streptomycin-0.5 vial	4.52
9.	Streptomycin + Penicillin Injection	Streptomycin-0.25 gm + Penicillin-5 lac units/dose	Streptomycin-0.25 vial	2.80

[No. 8(90)/87-PI(II)]

R.S. MATHUR, Jt. Secy & Development  
Commissioner (PI)